



November 14, 2024

To,

BSE Limited, 20 th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001. (Scrip Code: 539528; Scrip Id: AAYUSH)	Metropolitan Stock Exchange of India Limited, Vibgyor Towers, 4 th floor, Plot No C 62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 098 (Symbol – AAYUSH, Series – EQ)
--	--

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement of Extract of Un-Audited Financial Results for the half year ended on September 30, 2024.

In accordance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copies of the newspaper advertisements for the Un-Audited Financial Results of the company for the half-year ended September 30, 2024, have been published in the following newspapers:

- English Newspaper (Having Nationwide circulation)
- Hindi Newspaper (Having Regional Circulation)

Kindly take the above cited information in your records.

Thanking You,

For Aayush Wellness Limited
(Formerly known as Aayush Food and Herbs Limited)

Naveenakumar Kunjaru
Managing Director
DIN: 07087891

AAYUSH WELLNESS LIMITED
(Formerly known as Aayush Food and Herbs Limited)
CIN: L01122DL1984PLC018307

Registered Office: 55, 2nd Floor, Lane 2, Westend Marg, Saidullajab, Near Saket Metro Station, New Delhi, Delhi - 110030

Contact No: +91 84486 93031 | **Email:** cs@aayushwellness.com | **Website:** www.aayushwellness.com

MARYADA COMMERCIAL ENTERPRISES AND INVESTMENT COMPANY LIMITED				
Regd. Office: 106, (1st Floor), Madhuban Tower, A-1, V.S. Block, Shakarpur Crossing, New Delhi - 110092				
Phone: 91-11-49901667 Web: www.maryadainvestment.in				
(CIN: L65993DL1962PLC013738)				
STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024				
(Rs. in Thousand)				
Sr. No.	Particulars	STANDALONE RESULTS		
		Quarter ended 30.09.2024	Half Year ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)
1	Total Income from Operations	4,036	14,588	6,157
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)#	3,013	12,560	5,253
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	3,013	12,560	5,253
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	3,011	12,558	5,249
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,313	16,468	5,230
6	Equity Share Capital	12,450	12,450	12,450
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year			
8	Earning per share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	2.42	10.09	4.22
	2. Diluted:	2.42	10.09	4.22

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites at www.mseil.in and also on the Company's website at www.maryadainvestment.in.

b) #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For Maryada Commercial Enterprises and Investment Company Limited

Sd/-
Sati Nath Das
Director
DIN: 03114586

Place of Signing: New Delhi
Date: 13th November, 2024

COLAMA COMMERCIAL COMPANY LIMITED				
CIN: L51109WB1983PLC035719				
Regd. Office : CA-226, CA Block Sector 1, Kolkata - 700054				
Email: colamacommercial@gmail.com, Website: www.colamacommercial.in				
Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2024				
(₹ in Lakhs)				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30-Sep-2024	Quarter ended 30-Sep-2023	Year ended 31-Mar-2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
		1	Total income from operations (net)	8.72
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.39	3.28	8.12
3	Net Profit/(Loss) for the quarter before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.39	3.28	8.12
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.39	3.28	6.07
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))		3.28	6.07
6	Equity Share Capital	24.75	24.75	24.75
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	Basic:	0.56	1.33	2.45
	Diluted:	0.56	1.33	2.45

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.colamacommercial.in

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
RAJESH PRAJAPATI
Wholetime Director
DIN: 08251452

Place : Kolkata
Date : 13.11.2024

Ayush Wellness Limited			
55, 2nd Floor, Lane 2, Westend Marg, Saidulajab, Near Saket Metro Station, Gadaipur, Southwest Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110030.			
CIN: L01122DL1984PLC018307; Email: cs@ayushwellness.com; Website: www.aayushwellness.com			
Extracts of the statement of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30 th September 2024.			
(Amount in '000 except EPS)			
Particulars	Standalone		
	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)
Total income from operations (net)	142784.643	8,392.469	6438.119
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	9228.326	5,923.247	2838.217
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	9228.326	5,923.247	2838.217
Net Profit / (Loss) for the period after tax (Share of Re. 1/- each)	9228.326	5,718.842	2838.217
Paaid-up Equity Share Capital (Share of Re. 1/- each)	32450.000	32450.000	32450.000
Earning per equity share			
Basic	0.284	0.176	0.087
Diluted	0.284	0.176	0.087

Note:

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Result for the quarter and half year ended is available on the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.mseil.in). Figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified wherever considered necessary.

By Order of the Board
For Ayush Wellness Limited
Sd/- Naveenakumar Kunjuru
Managing Director
DIN: 07087891

Place: New Delhi
Date: 13.11.2024

(..... Continued from previous page)

- (3) EBITDA Margin (in %): calculated as the percentage of EBITDA during a given year/period divided by Total Income. This gives information regarding operating efficiency of our Company.
- (4) Profit after tax: This gives information regarding the overall profitability of our Company.
- (5) PAT Margin (in %): calculated as the restated profit after tax and non-controlling interest attributable to equity shareholders of our Company divided by the Total Income. This gives information regarding the overall profitability of our Company in comparison to Total Income of our Company.
- (6) Net worth' means aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the Restated Financial Information, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation, capital reserve and credit balance of the non-controlling interest. This gives information regarding total value created by the entity and provides a snapshot of current financial position of the entity.
- (7) Debt/Equity: The total debt of our Company at the end of the year/period divided by the net worth of our Company at the end of the year/period. This provides information about how much debt a company is using to finance its assets relative to the value of shareholders' equity
- (8) RoNW (in %): Restated profit after tax and non-controlling interest attributable to equity shareholders for the year/period attributable to equity shareholders of our Company divided by the net worth of our Company at the end of the year/period. This gives information regarding profitability of our Company on the shareholders' funds deployed in the business.
- (9) Net Asset Value per Equity Share is calculated as Restated net worth excluding revaluation reserves, capital reserve and credit balance of the non-controlling interest at the end of the year/period divided by the number of equity shares outstanding at the end of year/period and adjusted bonus and split.

COMPARISON OF KPIS OF WITH LISTED INDUSTRY PEERS:

(Rs. in lakhs)

Key Performance Indicators	C2C Advanced Systems Limited			Paras Defence and Space Technologies Limited		
	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2022
Revenue from Operations	4,105.89	804.87	34.69	23,243.45	21,427.96	18,000.01
EBITDA	1,832.52	386.20	(200.30)	6,036.06	6,361.40	5,449.07
EBITDA Margin (in %)	44.63	47.98	(600.46)	26.09	29.69	30.27
Profit after tax	1,239.54	287.52	(238.21)	3,423.25	3,592.82	2,690.86
PAT Margin (in %)	30.19	35.72	(686.68)	14.73	16.77	14.95
Net worth	7,645.83	252.14	(136.57)	41,290.11	37,938.27	34,386.92
Debt/Equity	-	3.75	(4.06)	0.08	-	0.08
RoNW (in %)	16.21	114.03	Not ascertainable	8.29	9.47	7.83
NAV (in ₹)	62.38	16.81	(27.31)	105.87	97.28	88.17

Source: Annual Reports of the respective companies / www.bseindia.com/www.nseindia.com:

IN TERMS OF THE SEBI CIRCULAR NO. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015, DATED NOVEMBER 10, 2015 AND THE ALL-POTENTIAL INVESTORS SHALL PARTICIPATE IN THE ISSUE ONLY THROUGH AN APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF-CERTIFIED SYNDICATE BANKS ("SCSBS") FOR THE SAME. FURTHER PURSUANT TO SEBI CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/TPD1/CIR/P/2023/140, FOR IMPLEMENTATION OF PHASE III FOR UPI FACILITY, WHICH IS EFFECTIVE FROM DECEMBER 01, 2023 ON MADATORY BASIS, ALL POTENTIAL BIDDERS (EXCEPT ANCHOR INVESTORS) ARE REQUIRED TO MANDATORILY UTILIZE THE APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE ASBA ACCOUNTS OR UPI ID (IN CASE OF RIIS), IN WHICH THE CORRESPONDING APPLICATION AMOUNTS WILL BE BLOCKED BY THE SCSBS OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS APPLICABLE. FOR DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE NO. 284 OF THE PROSPECTUS. IN CASE OF DELAY, IF ANY IN UNBLOCKING/REFUND THE FUND, OUR COMPANY SHALL PAY INTEREST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15% PER ANNUM FOR THE PERIOD OF DELAY. THE ISSUE IS BEING MADE UNDER PHASE III OF THE UPI (ON A MANDATORY BASIS).

ANCHOR INVESTORS BIDDING DATE: THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024**BID OPENING DATE : FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024****BID CLOSING DATE (T DAY) : TUESDAY, NOVEMBER 26, 2024****BID / OFFER PROGRAM**

Finalization of basis of allotment with the Designated Stock Exchange/ Allotment of Securities (T + 1 Day)	On or before Wednesday, November 27, 2024	Credit of Equity Shares to demat accounts of Allotees (T + 2 Days)	On or before Thursday, November 28, 2024
Initiation of Unblocking of Funds/refunds (T + 2 Days)	On or before Thursday, November 28, 2024	Commencement of Trading of Equity Shares on the Stock Exchanges/Listing Date (T + 3 Days)	On or before Friday, November 29, 2024

Timelines for Submission of Application**Application Submission by Investors**

Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – Upto 5 pm on T day.

Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) – Upto 4 pm on T day.

Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non Individual Applications) – Upto 3 pm on T day.

Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on T day.

Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 Noon on T day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T day.

UPI Mandate acceptance time: T day – 5 pm

Issue Closure:**T day – 4 pm for QIB and NII categories****T day – 5 pm for Retail and other reserved categories**

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBS") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 284 of Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders / Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 168 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 353 of the Red Herring Prospectus.

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 17,00,00,000 divided into 1,70,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 12,25,75,680 divided into 1,22,57,568 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 72 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Mr. Subrahmanya Srinivasa Narendra Lanka – 1 Equity Share and Mr. Kuriyedath Ramesh – 1 Equity Share. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 72 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. Our Company has received an in-principle approval from the National Stock Exchange of India Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated October 08, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on November 12, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 353 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus will be filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 259 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer Document. The investors are advised to refer to page 267 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of National Stock Exchange of India Limited.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 26 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER**MARK CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED**

CIN Number : U67190MH2008PTC181996
Address: 404/1, The Summit Business Bay, Sant Janabai Road (Service Lane), Off W. E. Highway, Vile Parle (East), Mumbai-400 057, Maharashtra
Tel. No.: +91 22 2612 3207/08
Email id: smeipo@markcorporateadvisors.com
Investor Grievance Email id: investorsgrievance@markcorporateadvisors.com
Website: www.markcorporateadvisors.com
Contact Person: Mr Manish Gaur
SEBI Registration Number: INM000012128

**BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED**

SEBI Registration Number: INM000012917
Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Ship Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat – 380054, India.
Telephone Number: 079 4918 5784
Email id: mb@beelinemb.com
Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com
Website: www.beelinemb.com
Contact Person: Mr. Nikhil Shah
CIN: U67190GJ2020PTC114322

REGISTRAR TO THE OFFER**LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED**

Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B. S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083 Maharashtra, India
Tel. No. : + 91 22 4918 6200
Email id: c2csme ipo@linkintime.co.in
Investor grievance e-mail: c2csmeipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
Contact Person:- Ms. Shanthi Gopalkrishnan
SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**C2C Advanced Systems Limited**

Mr. Manjeet Singh
Address: C4, Anand Niketan, New Delhi – 110 021, India | Tel No: +91 80 4372 4052 | Email: compliance@c2c-as.com
Website: www.c2c-as.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.c2c-as.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, the website of the BRLMs i.e. Mark Corporate Advisors Private Limited and Beeline Capital Advisors Private Limited at www.markcorporateadvisors.com and www.beelinemb.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: C2C Advanced Systems Limited, Telephone: + 91 80 4372 4052; BRLMs: Mark Corporate Advisors Private Limited, Tel. No.: +91 22 2612 3207/08 Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBS, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: IndusInd Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

**On behalf of Board of Directors
For, C2C ADVANCED SYSTEMS LIMITED**
sd/-
**Lakshmi Chandra
Managing Director**

Place: Bengaluru
Date: November 13, 2024

Disclaimer: C2C Advanced Systems Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Bengaluru, Karnataka on November 12, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.c2c-as.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, the website of the BRLMs i.e. Mark Corporate Advisors Private Limited and Beeline Capital Advisors Private Limited at www.markcorporateadvisors.com and www.beelinemb.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- 110 001
 सीआईएन : एल13100डीएल1976पीएलसी188942, दूरभाष : (011) 43621200, फैक्स : (011) 41501333
 वेबसाइट : www.landmarkproperty.in, ईमेल : info@landmarkproperty.in

30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्धवर्ष			समाप्त वर्ष
		₹/लाख 30-सितं-24 अलेखापरीक्षित	₹/लाख 30-जून-24 अलेखापरीक्षित	₹/लाख 30-सितं-23 अलेखापरीक्षित	₹/लाख 30-सितं-24 अलेखापरीक्षित	₹/लाख 30-सितं-23 अलेखापरीक्षित	₹/लाख 31-मार्च-24 लेखापरीक्षित	
1	कुल आय	45.58	52.89	39.69	98.47	85.53	172.82	
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं अपवादिक मदों के उपरान्त)	(383.12)	8.09	8.55	(375.03)	33.14	(1,159.68)	
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरान्त)	(383.12)	8.09	8.55	(375.03)	33.14	(1,159.68)	
4	कर चार्जद अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरान्त)	(387.50)	5.73	7.89	(381.77)	26.37	(1,172.05)	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]	(387.50)	5.73	7.89	(381.77)	26.37	(1,171.98)	
6	समतता अनु सूची (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक का)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	
7	आरक्षितियों (पुनर्मुखीकरण आरक्षित छोड़कर)	-	-	-	-	-	3,027.37	
8	अप्य प्रति अंश (रु. 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) (आवधिकीकरण)	-	-	-	-	-	-	
	(रु.) मूल्य (रु. में)	-0.29	0.004	0.01	-0.28	0.02	(0.87)	
	(रु.) तत्सम (रु. में)	(0.29)	0.004	0.01	-0.28	0.02	(0.87)	

टिप्पणियाँ : यहाँ दिनांक 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के दौरान कोई भी आपवादिक मद नहीं थी। उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास भाइलबद्ध, त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) पर एवं कंपनी की वेबसाइट (www.landmarkproperty.in) पर उपलब्ध है।

कृते लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
 हस्ता./-
 गौरव डालमिया
 प्रबंध निदेशक
 स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 13 नवंबर 2024

फार्म नं. आईएनसी-25ए
 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसारण में)
 कम्पनी को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
 केन्द्र सरकार,
 क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
 कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
 और
 मैसर्स एपेन बिल्डटेक लिमिटेड के मामले में
 (सीआईएन U70101DL2009PLC195064) जिसका पंजीकृत कार्यालय
 यूनिट नं. 101, प्रथम तल, वर्ल्डमार्क 2, एसेट 8, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट,
 दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110037, भारत में है
आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
 आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी शुक्रवार, 8 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन के लिए एवं परिवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
 कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/दर्जे में परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्यालय, पता: बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर दे सकता है या सोप सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।
पंजीकृत कार्यालय का पता: यूनिट नं. 101, प्रथम तल, वर्ल्डमार्क 2, एसेट 8, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110037, भारत.
एपेन बिल्डटेक लिमिटेड के लिए एवं उनकी ओर से
 हस्ता./-
 नितेश प्रसीन
 निदेशक
 तिथि: 13 नवंबर 2024
 स्थान: नई दिल्ली
 सीआईएन: 09748946

विवरण	एपेन बिल्डटेक लिमिटेड		
	तिमाही समाप्त 30.09.2024 (अंकेषित)	वर्ष समाप्त 31.03.2024 (अंकेषित)	तिमाही समाप्त 30.09.2023 (अंकेषित)
परिचालन से कुल आय (रुद)	142,784,643	8,302,469	64,38,119
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर और अपवादिक मदों से पहले)	92,28,326	5,923,247	2,830,217
कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	92,28,326	5,923,247	2,830,217
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (प्रत्येक शेयर 1/- रुपये) प्रति इक्विटी शेयर आय	32,450,000	32,450,000	32,450,000
बैकलि	0.284	0.176	0.087
तटल	0.284	0.176	0.087

उपर दिया गया विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। समाप्त तिमाही और छमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर और प्रोपर्टी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mse.in) पर उपलब्ध है।
 जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समीक्षित/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
बोर्ड के आवेद से
आयुष वेलनेस लिमिटेड के लिए
 हस्ता./-
 नवीनकुमार कुंभार
 प्रबंध निदेशक
 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 13.11.2024

क्र. सं.	विवरण	रुपये लाख में			
		30/09/2024 को समाप्त तिमाही	30/09/2023 को समाप्त तिमाही	30/09/2024 को समाप्त अर्ध वर्ष	31/03/2024 को समाप्त वर्ष
		अ-लेखापरीक्षित	अ-लेखापरीक्षित	अ-लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय (रुद)	1,057	1,003	1,777	4,764
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	(156)	(110)	(367)	112
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	(156)	(110)	(367)	112
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	(117)	(86)	(297)	146
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [कर के बाद अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य समग्र आय (कर के बाद) शामिल]	(117)	(86)	(297)	148
6	चुक्रता इक्विटी शेयर पूंजी	1,385	1,385	1,385	1,385
	असाधारण मदों (प्रत्येक 10 रुपये) के बाद प्रति शेयर आय (ईपीएस) (वार्षिक नहीं)।				
	मूल	(0.85)	(0.62)	(2.15)	1.05
	तटल	(0.85)	(0.62)	(2.15)	1.05

टिप्पणियाँ:
 1) उपरोक्त 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बोर्डसई लिमिटेड के साथ दायर इंड एप्ट के अनुसार तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। उक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बोर्डसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in पर उपलब्ध है।
 2) 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 13 नवंबर, 2024 को आयोजित उत्तरी बैठक में निदेशक नवल द्वारा अनुमोदित किए गए। कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षा के पूर्ण वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
 3) 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार हैं।
 4) पिछली अवधि के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः समीक्षा/पुनर्मुखीकरण/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
बोर्ड की ओर से प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
 हस्ता./-
 निखिल कनोडिया
 प्रबंध निदेशक
 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 13.11.2024

मेयेर अपैरल लिमिटेड						
सीआईएन: L18101HR1993PLC032010						
रजि. कार्यालय: मरिडल नंबर 17, किला नंबर-08, नरसिंहपुर, गुवाहाटी, नरसिंहपुर (हरियाणा) -122004						
दूरभाष: 91-9953696941, ईमेल: info@meयरapparel.com, वेबसाइट: www.meयरapparel.com						
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (लाख रुपये में)						
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		30 सितं. 2024 (अलेखापरीक्षित)	30 सितं. 2023 (अलेखापरीक्षित)	30 जून 2024 (अलेखापरीक्षित)	30 सितं. 2024 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	39.86	67.93	31.29	71.25	185.78
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	(29.91)	(57.16)	(27.33)	(57.24)	(119.37)
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	(29.91)	(57.16)	(27.33)	(57.24)	(119.37)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	(29.91)	(57.16)	(27.33)	(57.24)	(119.37)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (असाधारण) (कर के बाद)]	(29.91)	(57.16)	(27.33)	(57.24)	(119.37)
6	मूलान इक्विटी शेयर पूंजी (₹3/- प्रति का अंकित मूल्य)	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67
7	अप्य इक्विटी प्रति शेयर आय (₹3/- प्रत्येक का) (वारी और बंद परिचालन के लिए)	(0.04)	(0.07)	(0.03)	(0.07)	(0.14)
	बैकलि	(0.04)	(0.07)	(0.03)	(0.07)	(0.14)
	तटल	(0.04)	(0.07)	(0.03)	(0.07)	(0.14)

टिप्पणियाँ:
 1. ये वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 13 नवंबर, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक नवल द्वारा अनुमोदित किया गया।
 2. उपरोक्त सभी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट, अर्थात्: www.meयरapparel.com) पर उपलब्ध है।
बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से
 हस्ता./-
 नवीनकुमार कुंभार
 सीएफओ और पुर्णकालिक निदेशक
 सीआईएन: 08073521
 दिनांक: 13 नवंबर, 2024
 स्थान: गुवाहाटी

फार्म नं. आईएनसी-25ए
 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसारण में)
 कम्पनी को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
 केन्द्र सरकार,
 क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
 कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
 और
 मैसर्स अनोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के मामले में
 (सीआईएन: U45201DL2006PLC147283) जिसका पंजीकृत कार्यालय
 यूनिट नं. 101, प्रथम तल, वर्ल्डमार्क 2, एसेट 8, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट,
 दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110037, भारत में है
आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
 आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी शुक्रवार, 8 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन के लिए एवं परिवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
 कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/दर्जे में परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्यालय, पता: बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर दे सकता है या सोप सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।
पंजीकृत कार्यालय का पता: यूनिट नं. 101, प्रथम तल, वर्ल्डमार्क 2, एसेट 8, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110037, भारत.
अनोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए एवं उनकी ओर से
 हस्ता./-
 नितेश प्रसीन
 निदेशक
 तिथि: 13 नवंबर 2024
 स्थान: नई दिल्ली
 सीआईएन: 09748946

AMTL ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED																
Regd. Off.: LGF, E-8/1, Malviya Nagar, Near Geeta Bhawan Mandir, New Delhi - 110017 / Corporate Office: C-4 to C11, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida-201305																
Tel: 0120 6958777, Email: corporate@amtlgroup.in, Web: www.amtlgroup.in CIN # L31401DL2011PLC271394																
Particulars	Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2024						Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2024									
	Standalone			Consolidated			Quarter Ended			Half Year Ended			Year Ended			
	30th Sep-24 (Unaudited)	30th Jun-24 (Unaudited)	30th Sep-23 (Unaudited)	30th Sep-24 (Unaudited)	30th Sep-23 (Unaudited)	31st Mar-24 (Audited)	30th Sep-24 (Unaudited)	30th Jun-24 (Unaudited)	30th Sep-23 (Unaudited)	30th Sep-24 (Unaudited)	30th Sep-23 (Unaudited)	31st Mar-24 (Audited)	30th Sep-24 (Unaudited)	30th Sep-23 (Unaudited)	31st Mar-24 (Audited)	
Total Revenue from operations	655.05	829.58	623.06	1,484.63	1,215.35	2,251.37	701.35	875.30	660.14	1,576.65	1,278.96	2,398.92				
Profit / (Loss) before exceptional items	24.63	210.45	58.81	235.08	65.39	(176.47)	23.89	209.77	50.54	233.66	39.62	(201.22)				
Exceptional Items (Net - Gain/(Loss))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profit / (Loss) before tax and after exceptional items	24.63	210.45	58.81	235.08	65.39	(176.47)	23.89	209.77	50.54	233.66	39.62	(201.22)				
Profit / (Loss) for the period after tax	24.63	210.45	58.81	235.08	65.39	(176.47)	23.89	209.77	50.54	233.66	39.62	(201.22)				
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	24.58	211.34	58.16	235.92	66.94	(178.18)	22.14	211.45	50.31	233.59	40.42	(204.17)				
Equity Share Capital	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87	802.87				
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA	NA	NA	9,270.11	NA	NA	NA	NA	NA	9,115.49				
Earnings Per Share (Face value of Rs.5/- each)																
Basic:	0.15	1.31	0.37	1.46	0.41	(1.10)	0.15	1.31	0.31	1.46	0.25	(1.25)				
Diluted:	0.15	1.31	0.37	1.46	0.41	(1.10)	0.15	1.31	0.31	1.46	0.25	(1.25)				

Notes: (1) The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 13th November 2024 and approved and taken on record by the Board of Directors at the meeting held on 13th November 2024. (2) These standalone financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards (Ind AS) - 34 Interim Financial Reporting, notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India. (3) The above is an extract of Unaudited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The unaudited financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.amtlgroup.in). (4) No Provision for Deferred Tax Liabilities/Deferred Tax Assets including current tax has been recognized during the quarter and half year ended 30th September 2024 due to carried forward business losses and unabsorbed depreciation. (5) In the aforesaid standalone financials results all the figures are unaudited except for the figures for the year ended 31st March 2024. The figures for the second quarter in each of the financial year are the balancing figures between figures in respect of the half year ended and the published year to date reviewed figures upto the end of the first quarter of the respective financial year.

For and on behalf of the Board
 Advance Metering Technology Limited
 Sd/-
 (Prashant Ranade)
 Managing Director
 DIN-00006024

RAGHUNATH INTERNATIONAL LIMITED															
CIN No.: L52312UP1994PLC022559															
Registered Office : 8/226, Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur, (UP) - 208002															
Tel. No.: 011-23852583 Fax No.: 011-23852666 Website: www.rtilimited.in E-mail: rgc.secretarial@gmail.com															
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2024 (Rs. in lacs)															
S. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED					Financial Year ended	Financial Year ended		
		Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	Half Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	Half Year ended				
		30.09.2024	30.09.2023	30.06.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	30.06.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023
1.	Total income from operations (net)	-	24.832	-	-	24.832	-	-	24.832	-	-	24.832	-	-	-
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	200.409	3.100	7.428	207.837	(1.015)	14.501	200.409	3.100	7.428	207.837	(1.015)			